



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 21, 2003 (ज्येष्ठ 31, 1925)

No. 25]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 21, 2003 (JYAISTHA 31, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से
सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry
of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 2003

थल सेना विभाग

सं. 361, दिनांक, 23 मई 2003.—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैंट्री

गार्ड्स ब्रिगेड

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कुल्डा राम (जेसी-402524एन), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार रोशन लाल (जेसी-402341एक्स), 18 दिसम्बर
2002

नायब सूबेदार शेखर मोहन चन्दा (जेसी-402651एच), 02 जनवरी
2003

नायब सूबेदार कमल कुमार (जेसी-402785एफ), 12 मार्च 2003*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह पूनिया (जेसी-402922पी), 13 मार्च
2003*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

नायब सूबेदार राम किशना पाण्डे (जेसी-402802डब्ल्यू), 31
दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार सत्यनारायण सिंह चौहान (जेसी-402784एल), 17
मार्च 2003*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

नायब सूबेदार उमराव सिंह (जेसी-402803वाई), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जेसी-402822के), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार बीर सिंह (जेसी-402840एम), 12 फरवरी 2003*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

नायब सूबेदार चंचल सिंह (जेसी-402832एन), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार राम देव (जेसी-402562के), 03 अक्टूबर 2002
 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-402647ए), 26 जनवरी 2003
 नायब सूबेदार गजेन्द्र सिंह (जेसी-402559के), 04 फरवरी 2003

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सी राम कृष्णनन (सं. 13686430 एच अब जेसी-403322वाई) 26 सितम्बर 2002*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जाएगी।

हवलदार हबे सिंह (सं. 13678496के अब जेसी-403323एफ), 06 अक्टूबर 2002

हवलदार मोहन सिंह (सं. 13679550वाई अब जेसी-403324के), 17 नवम्बर 2002*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 2002 से दी जाएगी।

हवलदार ओमबीर सिंह (सं. 13682172डब्ल्यू अब जेसी-403325एम), 26 अक्टूबर 2002

हवलदार रण सिंह (सं. 13681496पी अब जेसी-403326पी), 16 दिसम्बर 2002

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 13684277वाई अब जेसी-403327एक्स), 24 फरवरी 2003*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 दिसम्बर 2002 से दी जाएगी।

हवलदार गणेश सिंह (सं. 13679593एन अब जेसी-403328ए), 02 जनवरी 2003*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 दिसम्बर 2002 से दी जाएगी।

हवलदार धर्मवीर सिंह (सं. 13682568एम अब जेसी-403329एच), 02 जनवरी 2003

हवलदार चेत राम हरीजन (सं. 13680785एक्स अब जेसी-403330एक्स), 01 फरवरी 2003

हवलदार श्याम बाहू (सं. 13681309एक्स अब जेसी-403259पी) 04 नवम्बर 2002

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जाएगी)

हवलदार त्रिभुवन चौहान (सं. 13684116 डब्ल्यू अब जेसी-403260 के) 10 अगस्त 2002

हवलदार रामाधर (सं. 13679434 डब्ल्यू अब जेसी-403261 एम) 25 अगस्त 2002

हवलदार मायाधर (सं. 13680564 एल अब जेसी-403262पी) 25 अगस्त 2002

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 13680660ए अब जेसी-403263 एक्स) 25 अगस्त 2002

हवलदार जय नाथ राय (सं. 13680772ए अब जेसी-403264ए) 25 अगस्त 2002

हवलदार राम सिंह यादव (सं. 13682068 एच अब जेसी-403265एच) 31 अगस्त 2002

हवलदार रोबिन चन्द्र बोरा (सं. 13682917वाई अब जेसी-403266एल) 02 सितम्बर 2002

हवलदार मोहन चन्द (सं. 13681976वाई अब जेसी-403267एन) 18 सितम्बर 2002

हवलदार दुर्गा प्रसाद (सं. 13679643एन अब जेसी-403270एन) 01 अक्टूबर 2002

हवलदार मोहन लाल (सं. 13678955 एक्स अब जेसी-403271डब्ल्यू) 01 अक्टूबर 2002

हवलदार शिव गोबिन्द यादव (सं. 13685819के अब जेसी-403272वाई) 01 अक्टूबर 2002

हवलदार राजेन्द्र कुमार (सं. 13685848वाई अब जेसी-403273एफ) 01 अक्टूबर 2002

हवलदार थोमस एम एम (सं. 13685524एन अब जेसी-403274के) 01 अक्टूबर 2002

हवलदार रूद्र पाल सिंह (सं. 13681845एन), अब जेसी-403275एम), 13 अक्टूबर 2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अक्टूबर 2002 से दी जाएगी)

हवलदार तुकाराम बन्दु रिकमे (सं. 13682087एन अब जेसी-403276पी), 03 अक्टूबर 2002

हवलदार वीर सेन (सं. 13682190वाई अब जेसी-403277एक्स), 03 अक्टूबर 2002

हवलदार अभय राम यादव (सं. 13684190 एक्स अब जेसी-403278ए), 15 अक्टूबर 2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अक्टूबर 2002 से दी जाएगी)

हवलदार नागराजन आर (सं. 13685674 के अब जेसी-403279एच), 10 नवम्बर 2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (कलक) के रैंक में

हवलदार (कलक) शिव दत्त नारायण शुक्ला (सं. 13676871एल अब जेसी-403268डब्ल्यू), 19 अक्टूबर 2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क) राजबीर सिंह (सं. 13680765के अब जेसी-403269वाई), 14 अक्टूबर 2002

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क) राधाकृष्ण (सं. 13681034एच अब जेसी-403280एक्स), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार (क्लर्क) बलवान सिंह (सं. 13684317पी अब जेसी-403281ए), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार (क्लर्क) महा सिंह (सं. 13684331एफ अब जेसी-403282एच), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सावन्त बाबा साहेब तुकाराम (सं. 13685812ए अब जेसी-403318 डब्ल्यू), 03 अक्टूबर 2002

हवलदार हंस राज (सं. 13682386एम अब जेसी-403319वाई), 10 फरवरी 2003

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 दिसम्बर 2002 से दी जाएगी)

हवलदार कर्ण सिंह (सं. 13681907एच अब जेसी-403321डब्ल्यू), 02 जनवरी 2003

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार प्रकाश सिंह (सं. 13679218एच अब जेसी-403320एन), 01 जनवरी 2003

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राना राम चौधरी (सं. 13682896एन अब जेसी-403331ए), 04 फरवरी 2003

हवलदार प्यारे लाल यादव (सं. 13682425पी अब जेसी-403332एच), 20 फरवरी 2003

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार (एस के टी) प्रती पाल सिंह (सं. 13687093एल अब जेसी-403333एल), 01 मार्च 2003

राष्ट्रपति के अंगरक्षक

नायब रिसालदार के रैंक में

दफेदार सुरेन्द्र कुमार (नं. 13700347वाई अब जेसी-235027ए), 01 जुलाई 2002

कर्वाचत कोर

स्थाई रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार प्रताप सिंह (जेसी-237725एफ), 01 नवम्बर 2000

नायब रिसालदार परम सिंह (जेसी-237726के), 01 जनवरी 2001

नायब रिसालदार कुलदीप सिंह गुलेरिया (जेसी-237727एम), 01 जनवरी 2001

नायब रिसालदार पंजाब सिंह (जेसी-237837एफ), 01 जनवरी 2001

नायब रिसालदार नत्थी सिंह तोमर (जेसी-237874एन), 01 फरवरी 2002

नायब रिसालदार कमलजीत सिंह (जेसी-237591एन), 11 अप्रैल 2002*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार तरलोक सिंह (जेसी-237833एल), 01 अप्रैल 2002

नायब रिसालदार नागनाथ नारायण गदा (जेसी-237539एल), 16 अक्टूबर 2000*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 मई 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पुष्करक्षण एस (जेसी-237852डब्ल्यू), 17 जनवरी 2003*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार नन्द लाल राम (जेसी-238661एन), 01 जुलाई 2002

नायब रिसालदार तराल धनाथा भाई बु भुरा भाई (जेसी-238431एल), 14 अगस्त 2002*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जुलाई 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गोकुल चन्द (जेसी-238856वाई), 01 दिसम्बर 2002*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सरवार सिंह (जेसी-238033वाई), 13 नवम्बर 2002*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार विजयन-वी (जेसी-238103 एम), 16 अक्टूबर 2002*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 सितम्बर 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जसबिन्दर सिंह जसवाल (जेसी-238019एच), 03 अक्टूबर 2002*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जगवीर (जेसी-238122एक्स), 23 नवम्बर 2002*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कमल कुमार (जेसी-238741एल), 04 नवम्बर 2002*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रमा शंकर सिंह (जेसी-238035के), 02 दिसम्बर 2002*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार श्याम सिंह (जेसी-238139एल), 01 दिसम्बर 2002

नायब रिसालदार दलीप सिंह (जेसी-238234एक्स), 01 दिसम्बर 2002

नायब रिसालदार बिरहमपाल सिंह (जेसी-237904एफ), 01 दिसम्बर 2002

नायब रिसालदार जय सिंह खंगोट (जेसी-239080एच), 01 दिसम्बर 2002

नायब रिसालदार सुबाश चन्द्र (जेसी-238206एल), 07 जनवरी 2003*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार आर वेणु गोपाल (जेसी-238273डब्ल्यू), 07 जनवरी 2003*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/क्लर्क जीडी महेन्द्र सिंह नरुला (जेसी-238091एच), 01 जनवरी 2003*

नायब रिसालदार जतीन चमुराह एम (जेसी-238115एफ), 05 अक्टूबर 2001*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2001 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मृत्युंजय प्रताप सिंह (जेसी-238216पी), 12 दिसम्बर 2001*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2001 से दी जाती है)

नायब रिसालदार महिपाल (जेसी-238341वाई), 10 जनवरी 2002*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जसवीर सिंह (जेसी-238388के), 13 जून 2002*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 फरवरी 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार शिवा ब्रता गुहा राय (जेसी-238682के), 25 अगस्त 2002*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार महादेव पाटील (जेसी-238601वाई), 29 सितम्बर 2002*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राज बहादुर (जेसी-238439एम), 27 अक्टूबर 2002*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार निरंजन कुमार ग्यान (जेसी-238933एच), 24 अगस्त 2002*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुलीन्दर सिंह (जेसी-238701के), 10 फरवरी 2003*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कनया लाल मंडल (जेसी-238702एम), 10 फरवरी 2003*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बिरमा राम रलिया (जेसी-238462ए), 30 जनवरी 2003*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जनार्दन प्रसाद (जेसी-238245के), 03 फरवरी 2003*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-238183पी), 07 मार्च 2003*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जगदीश सिंह (जेसी-237728पी), 06 मार्च 2003*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/क्लर्क (जीडी) राजपाल सिंह (जेसी-238092एल), 25 जनवरी 2003*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/क्लर्क (जीडी) पालावलासा रूक्मण गदा राव (जेसी-238093एन), 01 फरवरी 2003

नायब रिसालदार/क्लर्क (जीडी) करण सिंह (जेसी-238094डब्ल्यू), 01 फरवरी 2003

नायब रिसालदार/क्लर्क (जीडी) परबत सिंह (जेसी-238152पी), 08 फरवरी 2003*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राजेन्द्र प्रताप मिश्रा (जेसी-238520एल), 01 मार्च 2003

नायब रिसालदार परमजीत सिंह (जेसी-239067वाई), 01 मार्च 2003

नायब रिसालदार बलविन्दर सिंह (जेसी-238546एन), 06 मार्च 2003*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुरजीत सिंह (जेसी-238893एम), 04 मार्च 2003*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/क्लर्क (जीडी) महेन्द्रा प्रताप सिंह जादौन (जेसी-238217एक्स), 01 मार्च 2003

नायब रिसालदार/क्लर्क (जीडी) परमजीत सिंह (जेसी-238320एच), 01 मार्च 2003

नायब रिसालदार/क्लर्क (जीडी) ए राजेश्वर राव (जेसी-238408एम), 01 अप्रैल 2003

विशेष सूची

नायब रिसालदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में

हरमिन्दर सिंह (जेसी-239852पी), 15 फरवरी 2003

अनुप कुमार दंगवाल (जेसी-239850के), 15 फरवरी 2003

देवेन्द्र कुमार (जेसी-239851एम), 15 फरवरी 2003

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार राम बक्श सिंह (सं. 1064000एक्स अब जेसी-239788एच), 01 सितम्बर 2002

दफादार रोहतास कुमार (सं. 1070587एक्स अब जेसी-239795वाई), 01 सितम्बर 2002

दफादार विरेन्द्र कुमार (सं. 1065151एच अब जेसी-239865एम), 17 अक्टूबर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार कृशनपाल सिंह (सं. 1063939एफ अब जेसी-239903एक्स), 20 नवम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्र सिंह सामंत (सं. 1064572वाई अब जेसी-239906एल), 15 दिसम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार सतपाल सिंह (सं. 1064250वाई अब जेसी-239914के), 20 नवम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार रघुनाथ (सं. 1069511एल अब जेसी-239916पी), 20 नवम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार दलबीर सिंह (सं. 1069708एफ अब जेसी-239917एक्स), 20 नवम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार बलवन्त सिंह (सं. 1064671एफ अब जेसी-239919एच), 15 दिसम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार कप्पाला त्रिनाथ (सं. 1066692डब्ल्यू अब जेसी-239927एफ), 16 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जाती है)

दफादार सीता राम शर्मा (सं. 1067888डब्ल्यू अब जेसी-239928के), 07 दिसम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार अमीर सिंह (सं. 1080954एम अब जेसी-239930एफ), 08 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार बाबू लाल सिंह (सं. 1064943डब्ल्यू अब जेसी-239932एम), 16 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 सितम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार तृप्त नारायण झा (सं. 1068709एक्स अब जेसी-239933पी), 03 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार प्रेम रत्न (सं. 1062076वाई अब जेसी-239940एल), 08 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार खयाली राम (सं. 1062275एम अब जेसी-239941एन), 08 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार स्वर्ण चन्द (सं. 1064465एक्स अब जेसी-239942डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार सरबेश्वर नाथ पाठक (सं. 1063722एक्स अब जेसी-239943वाई), 16 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार जालिम सिंह रजावत (सं. 1064078 एच अब जेसी-239946एम), 26 दिसम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार उदय पाल सिंह (सं. 1064390एल अब जेसी-239947पी), 26 दिसम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार जय प्रकाश (सं. 1072625एफ अब जेसी-239948एक्स), 26 दिसम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार ओंकार सिंह (सं. 1065027एफ अब जेसी-239949ए), 26 दिसम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार रामहेत सिंह (सं. 1069482एफ अब जेसी-239950पी), 09 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार बचन सिंह (सं. 1065248एन अब जेसी-239953एच), 08 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार नरोत्तम सिंह (सं. 1070614डब्ल्यू अब जेसी-239955एन), 07 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार फोर सिंह (सं. 1064619वाई अब जेसी-239956डब्ल्यू), 19 दिसम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार राम मनी मिश्रा (सं. 1066799एल अब जेसी-239957वाई), 16 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार घनश्याम राय (सं. 1067434एच अब जेसी-239958एफ), 21 दिसम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार मदन सिंह (सं. 1066176एफ अब जेसी-239959के), 08 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार गणेश (सं. 1069318वाई अब जेसी-239960वाई), 20 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार रणधीर सिंह (सं. 1066675डब्ल्यू अब जेसी-239961एफ), 15 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार बलवीर सिंह (सं. 1066734एक्स अब जेसी-239962के), 08 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार कालू राम भामु (सं. 1074247एम अब जेसी-239963एम), 30 दिसम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार वीरेन्द्र सिंह (सं. 1069383वाई अब जेसी-239964पी), 16 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार गो. वर्गीस ओ (सं. 1074593एच अब जेसी-239969एन), 15 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार जसबीर सिंह (सं. 1066803एच अब जेसी-239970एच), 06 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार भवानी सिंह (सं. 1078214वाई अब जेसी-239971एल), 06 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार पी एलुमलाई (सं. 1066846एक्स अब जेसी-239974वाई), 08 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार प्रसन्न चन्द्र दास (सं. 1065452डब्ल्यू अब जेसी-239986एन), 09 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जाती है)

दफादार सुशांत राय (सं. 1067871एच अब जेसी-239988वाई), 07 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार अशोक कुमार गौर (सं. 1068769एम अब जेसी-239991वाई), 16 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार सुरत सिंह (सं. 1067886एल अब जेसी-239992एफ), 07 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार कृष्ण प्रसाद (सं. 1067887एन अब जेसी-239993के), 07 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार जवाहर प्रसाद सिंह (सं. 1067267एक्स अब जेसी-239997ए), 29 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार नन्हे राम (सं. 1066863एक्स अब जेसी-239999एल), 16 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार प्रीतम सिंह (सं. 1062592एन अब जेसी-240000एम), 29 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार अवदेश सिंह (सं. 1067933एक्स अब जेसी-240004एच), 07 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार पेप सिंह राठोर (सं. 1063900पी अब जेसी-240005एल), 11 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार त्रिभुवन नाथ कुशवाहा (सं. 1063527ए अब जेसी-240006एन), 08 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार दावद खान (सं. 1064296एफ अब जेसी-240007डब्ल्यू), 06 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है)

दफादार विजय कुमार सिंह (सं. 1069099एच अब जेसी-240008वाई), 09 जनवरी 2003

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है)

दफादार सन्त कुमार सिंह (सं. 1063925एफ अब जेसी-240009एफ), 11 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है)

दफादार अतिबल सिंह (सं. 1064246डब्ल्यू अब जेसी-240010डब्ल्यू), 11 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है)

दफादार फुल सिंह (सं. 1069764ए अब जेसी-240011वाई), 01 जनवरी 2003

दफादार रतन चन्द (सं. 1063149एम अब जेसी-240012एफ), 29 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है)

दफादार जसबीर सिंह (सं. 1066483वाई अब जेसी-240014एम), 08 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है)

दफादार सुनील मंडल (सं. 1068484ए अब जेसी-240019एल), 24 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है)

दफादार ईश्वर सिंह (सं. 1069734एच अब जेसी-240020ए), 28 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जनवरी 2003 से दी जाती है)

दफादार सत्यपाल सिंह सिरौही (सं. 3174521ए अब जेसी-240021एन), 23 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जनवरी 2003 से दी जाती है)

दफादार अशोक कुमार सिंह (सं. 1067337 एल अब जेसी-239582एल), 13 मार्च 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2001 से दी जाती है)

दफादार अशोक उमरन (सं. 1067076एच अब जेसी-239655एम), 17 जुलाई 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2002 से दी जाती है)

दफादार उदय राम (सं. 1063818ए अब जेसी-239731एन), 01 फरवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जाती है)

दफादार विनोद कुमार सेन (सं. 1067548एन अब जेसी-239778वाई), 30 अगस्त 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जाती है)

दफादार चमन लाल सुदान (सं. 1064472 एन अब जेसी-239821पी), 10 अक्टूबर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार पाखर सिंह (सं. 1077861एम अब जेसी-239869एच), 16 नवम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जाती है)

दफादार कुशल पाल सिंह (सं. 1069963एन अब जेसी-239870एक्स), 16 नवम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जुलाई 2002 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्रन एस (सं. 1065881एन अब जेसी-239897पी), 02 दिसम्बर 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जाती है)

दफादार अरविन्द कुमार सिंह (सं. 1068703डब्ल्यू अब जेसी-239920एक्स), 01 दिसम्बर 2002

दफादार बिसवानाथ पी डी सा (सं. 1067158एल अब जेसी-239929एम), 31 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जाती है)

दफादार दिलावर सिंह (सं. 1066549 के अब जेसी-239951एक्स), 15 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार राजपाल (सं. 1064540डब्ल्यू अब जेसी-239987डब्ल्यू), 27 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार बलबीर सिंह (सं. 1069735 एल अब जेसी-239989एफ), 14 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार बलबीर सिंह (सं. 1069711एफ अब जेसी-239990डब्ल्यू), 14 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार शिव नारायण (सं. 1070428ए अब जेसी-239994एम), 22 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार राम स्वरूप सिंह (सं. 1068379के अब जेसी-239996एक्स), 20 जनवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार ईश्वर सिंह (सं. 1070966 अब जेसी-240001पी), 29 जनवरी 2003 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार महावीर सिंह (सं. 1070004के अब जेसी-240003ए), 19 जनवरी 2003 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार केशवा नन्द (सं. 1062342एम अब जेसी-240013के), 01 जनवरी 2003

दफादार कृष्ण वीर सिंह (सं. 1065911ए अब जेसी-240015पी), 28 जनवरी 2003 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है)

दफादार प्रणेश कुमार गोगाई (सं. 1067266पी अब जेसी-240016एक्स), 01 जनवरी 2003

दफादार फतेह सिंह (सं. 1068523एन अब जेसी-240017ए), 01 जनवरी 2003

दफादार दलजीत सिंह (सं. 1069693 के अब जेसी-240018एल), 26 जनवरी 2003 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है)

दफादार राजाराम सिंह (सं. 1062636ए अब जेसी-240023एन), 01 फरवरी 2003 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार जय सिंह (सं. 1065549एक्स अब जेसी-240024डब्ल्यू), 31 जनवरी 2003 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जाती है)

दफादार लाखन सिंह (सं. 1067611एक्स अब जेसी-240025वाई), 31 जनवरी 2003 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार रणधीर सिंह (सं. 1069754डब्ल्यू अब जेसी-240026एफ), 01 फरवरी 2003 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार पाली सिंह (सं. 1067635एफ अब जेसी-240027के), 31 जनवरी 2003 *

2—114GI/2003

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार अमरीक सिंह (सं. 1079053एन अब जेसी-240028एम), 01 फरवरी 2003 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है)

दफादार उपाध्याय यादव (1065672डब्ल्यू अब जेसी-240029पी), 01 फरवरी 2003

दफादार शशि कान्त मित्रा (सं. 1065688एफ अब जेसी-240030के), 01 फरवरी 2003

दफादार महादेव ओरोन (सं. 1065115 एक्स अब जेसी-240031एम), 01 फरवरी 2002

दफादार नन्द लाल राम (सं. 1064690एम अब जेसी-240032पी), 01 फरवरी 2003

दफादार मुन्ना खान (सं. 1070311एफ अब जेसी-240033एक्स), 01 फरवरी 2003

दफादार राम फल (सं. 1062093वाई अब जेसी-240034ए), 01 फरवरी 2003

दफादार कश्मीर सिंह (सं. 1069695पी अब जेसी-240035एच), 01 फरवरी 2003

दफादार उम्मेद सिंह (सं. 1068425एन अब जेसी-240037एन), 01 फरवरी 2003

दफादार राम बरन बागेल (सं. 1067136एम अब जेसी-240042वाई), 06 फरवरी 2003 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार खुवीर सिंह (सं. 1067205एक्स अब जेसी-240043एफ), 06 फरवरी 2003 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार अरुण सैकिया (सं. 1067288एन अब जेसी-240044के), 06 फरवरी 2003 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

दफादार मदन लाल (सं. 1062286वाई अब जेसी-240046पी), 08 फरवरी 2003 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार नरंजन सिंह (सं. 1066723एल अब जेसी-240048ए), 03 फरवरी 2003 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार राम सरूप (सं. 1062531 डब्ल्यू अब जेसी-240050एक्स), 08 फरवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

दफादार हरद्वार प्रसाद (सं. 1065669 डब्ल्यू अब जेसी-240056वाई), 06 फरवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है)

दफादार नाराण सिंह तोमर (सं. 1069270 डब्ल्यू अब जेसी-240058के), 04 फरवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाती है)

दफादार गणेश बहादुर थापा (सं. 1067574पी अब जेसी-240060एफ), 06 फरवरी 2003*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाती है)

मेकनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) चांद वीर शरावत (जेसी-223509एच), 11 फरवरी 2003*

*सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) चत्तर सिंह (जेसी-418814पी), 03 दिसम्बर 2002*

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) राजिन्दर सिंह (जेसी-418815एक्स), 01 जनवरी 2003

नायब सूबेदार (लिपिक) गोपाल चन्द (जेसी-418816ए), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार (लिपिक) दर्शन लाल (जेसी-418846एक्स), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार (लिपिक) गोपाल सिंह (जेसी-418859पी), 01 मार्च 2003

सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में (जेसी-219241वाई), 13 फरवरी 2003*

*सूबेदार (एस के टी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जसवंत सिंह रावत (जेसी-219226के), 01 दिसम्बर 2002

सूबेदार जर्नेल सिंह (जेसी-195472एन), 01 जनवरी 2003

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राजपाल सिंह (जेसी-418957पी), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार मोहन राम (जेसी-418865एच), 23 दिसम्बर 2002*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम फल (जेसी-418484एफ), 03 फरवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार उन्नीकुमारन नायर के (जेसी-418440के), 05 फरवरी 2003

नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जेसी-418671ए), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार विशम्बर सिंह (जेसी-418854डब्ल्यू), 01 फरवरी, 2003

सूबेदार (आर टी पंडित) के रैंक में

नायब सूबेदार (आर टी) अश्विनी कुमार पाण्डे (जेसी-418014डब्ल्यू), 26 मार्च 2003*

*सूबेदार (आर टी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (आर टी) बिरेंद्रा उपाध्याय (जेसी-418015 वाई) 27 मार्च 2003*

*सूबेदार (आर टी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक/एस के टी) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) हिरामणी (14900427 डब्ल्यू अब जेसी-419679वाई), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार (लिपिक) सुरेन्द्र प्रसाद भारद्वाज (14900650ए अब जेसी-419690एक्स) 01 जनवरी 2003

हवलदार (लिपिक) नरायनन के (14900758एक्स अब जेसी-419709एल), 01 फरवरी 2003

हवलदार (लिपिक) विवेका नन्दा (14900897एफ अब जेसी-419713एन), 01 फरवरी 2003

हवलदार (लिपिक) राम भारी सिंह (14901175एफ अब जेसी-419710एल), 01 फरवरी 2003

हवलदार (लिपिक) ओम प्रकाश (14908805वाई अब जेसी-419711एच), 01 फरवरी 2003

हवलदार (एक के टी) बहादुर राम (2978069वाई अब जेसी-419712एल), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार वारधेसे जौज (14902356वाई अब जेसी-419714डब्ल्यू), 25 जनवरी 2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश कुमार (14906819ए अब जेसी-419715वाई) 17 फरवरी 2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार प्रेम सिंह (14907528एम अब जेसी-419716एफ), 03 फरवरी 2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार जगबीर सिंह (3169381पी अब जेसी-419717के), 31 जनवरी 2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार जे फ्रान्सिस (14902467 डब्ल्यू अब जेसी-419718एम) 16 जनवरी 2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार जोगिन्दर सिंह (14900572एन अब जेसी-419719पी), 01 फरवरी 2003

हवलदार अमर सिंह वर्मा (14900807पी अब जेसी-419720के), 01 फरवरी 2003

हवलदार मुमताज खान (14906704एम अब जेसी-419721एम), 03 फरवरी 2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

थल सेना विभाग

शुद्धिपत्र

सं. 362, तारीख 23.5.03 रक्षा मंत्रालय अधिसूचना सं. 48 दिनांक 07 दिसम्बर 2002 ज्यों कि भारत के राजपत्र संख्या 755 दिनांक 01 नवम्बर 2002 में प्रकाशित है उसमें शीर्षक थल सेना विभाग कवचित कोर के अंतर्गत निम्न प्रकार की शुद्धी की जाती है:—

नायब रिसालदार के रैंक में

के लिए

दफादार बलराज सिंह मनहास (सं. 1066477 एल अब जेसी-239347एम), 13 सितम्बर 2001*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जाती है)

पढ़ा जाए

दफादार बलराज सिंह मनहास (सं. 1066477एल अब जेसी-239347एम), 13 सितम्बर 2001*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2001 से दी जाती है)

के लिए

दफादार कोन सुभाश लक्ष्मण (सं. 1067142ए अब जेसी-239665डब्ल्यू), 09 जून 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2002 से दी जाती है)

पढ़ा जाए

दफादार खोत सुभाश लक्ष्मण (सं. 1067142ए अब जेसी-239665डब्ल्यू), 09 जून 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2002 से दी जाती है)

के लिए

दफादार बकतवार सिंह (सं. 1065582पी अब जेसी-239683वाई), 03 जुलाई 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जाती है)

पढ़ा जाए

दफादार बख्तावर सिंह (सं. 1065582पी अब जेसी-239683वाई), 03 जुलाई 2002*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जाती है)

के लिए

दफादार मइन्द्रा सिंह (सं. 1064156पी अब जेसी-239743एच), 01 अगस्त 2002*

पढ़ा जाए

दफादार महेन्द्रा सिंह (सं. 1064156पी अब जेसी-239743एच), 01 अगस्त 2002*

जोस थोमस
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

ARMY BRANCH

New Delhi, the 21st June 2003

No. 361, dated 23rd May 2003.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Sub

Nb Sub Kulda Ram (JC-402524N), 01st Oct 2002.

Nb Sub Roshan Lal (JC-402341X), 18th Dec 2002.

Nb Sub Sekhar Mohan Chanda (JC-402651H), 02nd Jan 2003.

Nb Sub Kamal Kumar (JC-402785F), 12th Mar 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2003).

Nb Sub Raghuvir Singh Punia (JC-402922P), 13th Mar 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2003).

Nb Sub Ram Kishna Pandey (JC-402802W), 31 Dec 2002.

Nb Sub Satyanarain Singh Chouhan (JC-402784L), 17 Mar 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2003).

Nb Sub Umrao Singh (JC-402803Y), 01 Feb 2003.

Nb Sub Harpal Singh (JC-402822K), 01 Feb 2003.

Nb Sub Bir Singh (JC-402840M), 12 Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2003).

Nb Sub Chanchal Singh (JC-402832N), 01 Mar 2003.

Nb Sub Ram Dev (JC-402562K), 03rd Oct 2002.

Nb Sub Rajender Singh (JC-402647A), 26th Jan 2003.

Nb Sub Gajender Singh (JC-402559K), 04th Feb 2003.

To be Nb Sub

Hav C Rama Krishnan (No. 13686430H Now JC-403322Y), 26th Sep 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2002).

Hav Habey Singh (No. 13678496K Now JC-403323F), 06th Oct 2002.

Hav Mohan Singh (No. 13679550Y Now JC-403324K), 17th Nov 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 21 Oct 2002).

Hav Ombir Singh (No. 13682172W Now JC-403325M), 26th Oct 2002.

Hav Ran Singh (No. 13681496P Now JC-403326P), 16th Dec 2002.

Hav Vikram Singh (No. 13684277Y Now JC-403327X), 24th Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 24 Dec 2002).

Hav Ganesh Singh (No. 13679593N Now JC-403328A), 02nd Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 26 Dec 2002).

Hav Dharambir Singh (No. 13682568M Now JC-403329H), 02nd Jan 2003.

Hav Chet Ram Harijan (No. 13680785X Now JC-403330X), 01st Feb 2003.

Hav Shyam Babu (No. 13681399X Now JC-403259P), 04th Nov 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2002).

Hav Tribhuban Chauhan (No. 13684116W Now JC-403260K), 10th Aug 2002.

Hav Ramadhar (No. 13679384W Now JC-403261M), 25th Aug 2002.

Hav Mayadhar Mahani (No. 13680564L Now JC-403262P), 25th Aug 2002.

Hav Devendra Singh (No. 13680660A Now JC-403263X), 25th Aug 2002.

Hav Jai Nath Rai (No. 13680772A Now JC-403264A), 25th Aug 2002.

Hav Ram Singh Yadav (No. 13682068H Now JC-403265H), 31st 2002.

Hav Robin Chandra Borah (No. 13682917Y Now JC-403266L), 02nd Sep 2002.

Hav Mohan Chand (No. 13681976Y Now JC-403267N), 18th Sep 2002.

Hav Durga Prasad (No. 13679643N Now JC-403270N), 01st Oct 2002.

Hav Mohan Lal (No. 13678955X Now JC-403271W), 01st Oct 2002.

Hav Shiwa Govind Yadav (No. 13685819K Now JC-403272Y), 01st Oct 2002.

Hav Rajendra Kumar (No. 13685848Y Now JC-403273F), 01st Oct 2002.

Hav Thomas MM (No. 13685524N Now JC-403274K), 01st Oct 2002.

Hav Rudar Pal Singh (No. 13681845N Now JC-403275M),
13th Oct 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 03 Oct 2002).

Hav Tukaram Bandu Rikante (No. 13682087N Now JC-
403276P), 03rd Oct 2002.

Hav Veer Sen (No. 13682190Y Now JC-403277X), 03rd
Oct 2002.

Hav Abhey Ram Yadav (No. 13684190X Now JC-
403278A), 15th Oct 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 11th Oct 2002).

Hav Nagarajan R (No. 13685674K Now JC-403279H),
10th Nov 2002.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01st Nov 2002).

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Shiv Dutt Narain Shukla (No. 13676871L Now
JC-403268W), 19th Oct 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01st Oct 2002).

Hav (Clk) Rajbir Singh (No. 13680765K Now JC-
403269Y), 14th Oct 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01st Oct 2002).

Hav (Clk) Radhakrishnan (No. 13681034H Now JC-
403280X), 01st Dec 2002.

Hav (Clk) Balwan Singh (No. 13684317P Now JC-
403281A), 01st Dec 2002.

Hav (Clk) Maha Singh (No. 13684331F Now JC-
403282H), 01st Dec 2002.

To be Nb Sub

Hav Sawant Baba Saheb Tukaram (No. 13685812A Now
JC-403318W), 03st Oct 2002.

Hav Hans Raj (No. 13682386M Now JC-403319Y), 10th
Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 18th Dec 2002).

Hav Karan Singh (No. 13681907H Now JC-403321W),
02st Jan 2003.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Prakash Singh (No. 13679218H Now JC-
403320N), 01st Jan 2003.

To be Nb Sub

Hav Rana Ram Choudhary (No. 13682896N Now JC-
403331A), 04th Feb 2003.

Hav Pyare Lal Yadav (No. 13682425P Now JC-403332H),
20th Feb 2003.

To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Prati Pal Singh (No. 13687093L Now JC-
403333L), 01 Mar 2003.

THE PRESIDENT'S BODYGUARD

To be Nb Ris (GD)

Dfr Surender Kumar (No. 13700347Y No. (JC-235027A),
01 Jul 2002.

ARMOURED CORPS

(To be Substantive Risaldar)

Naib Risaldar Pratap Singh (JC-237725F), 01 Nov 2000.

Naib Risaldar Param Singh (JC-237726K), 01 Jan 2001.

Naib Risaldar Kuldip Singh Gulera (JC-237727M), 01 Jan
2001.

Naib Risaldar Punjab Singh (JC-237837F), 01 Jan 2001.

Naib Risaldar Natthi Singh Tomar (JC-237874H), 01 Feb
2002.

Naib Risaldar Kamaljit Singh (JC-237591N), 11 Apr
2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2002 with-
out effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Tarlok Singh (JC-237833L), 01 Apr 2002.

Naib Risaldar Nagnath Narayan Gada (JC-237539L),
16 Oct 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 30 May 2002
without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Pushkarakshan S (JC-237852W),
17 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2002
without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Nandlal Ram (JC-238661N), 01 Jul 2002.

Naib Risaldar Taral Natha Bhai Bhura Bhai (JC-238481L),
14 Aug 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 14 Jul 2002 with-
out effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Gokul Chand (JC-238856Y), 01 Dec.
2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2002 with-
out effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Sarwar Singh (JC-238033Y), 13 Nov 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Sep 2002
without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Vijayan V (JC-238103M), 16 Oct 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 04 Sep. 2002 with-
out effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Jasbinder Singh Jaswal (JC-238019H), 03 Oct 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Jagvir (JC-238122X), 23 Nov 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Kamal Kumar (JC-238741L), 04 Nov 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 21 Oct 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Rama Shankar Singh (JC-238035K), 02 Dec 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Shyam Singh (JC-238139L), 01 Dec 2002.

Naib Risaldar Daleep Singh (JC-238234X), 01 Dec 2002.

Naib Risaldar Birahmpal Singh (JC-237904F), 01 Dec 2002

Naib Risaldar Jai Singh Khangrot (JC-239080H), 01 Dec 2002.

Naib Risaldar Subash Chandra (JC-238206L), 07 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar R Venu Gopal (JC-238273W), 07 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar/Clk (GD) Mahendra Singh Naruka (JC-238091H), 01 Jan 2003.

Naib Risaldar Jatin Chamurah M (JC-238115F), 05 Oct 2001.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Sep 2001 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Mirtunjay Pratap Singh (JC-238216P), 12 Dec 2001.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Nov 2001 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Mahipal (JC-238341Y), 10 Jan 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Jasbir Singh (JC-238388K), 13 Jun 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 08 Feb 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Shiva Barota Guha Roy (JC-238682K), 25 Aug 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Maha Dev Patil (JC-238601Y), 29 Sep 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Raj Bahadur (JC-238439H), 27 Oct 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Niranjana Kumar Gain (JC-238933H), 24 Aug 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Sulinder Singh (JC-238701K), 10 Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Kanai Lal Mandal (JC-238702M), 10 Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 23 Nov 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Birma Ram Raliya (JC-238462A), 30 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Janardan Prasad (JC-238245K), 03 Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Virender Singh (JC-238183P), 07 Mar 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Jagdish Singh (JC-237728P), 06 Mar 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar/Clk (GD) Rajpal Singh (JC-238092L), 25 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar/Clk (GD) Palavalasa Rukman Gada Rao (JC-238093N), 01 Feb 2003.

Naib Risaldar/Clk (GD) Karan Singh (JC-238094W), 01 Feb 2003.

Naib Risaldar/Clk (GD) Parbat Singh (JC-238152P), 08 Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Rajendra Pratap Mishra (JC-238520L), 01 Mar 2003.

Naib Risaldar Parmjit Singh (JC-239067Y), 01 Mar 2003

Naib Risaldar Balwinder Singh (JC-238546N), 06 Mar 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Surjeet Singh (JC-238893M), 04 Mar 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar/Clk (GD) Mahendra Pratap Singh Jadoun (JC-238217X), 01 Mar 2003.

Naib Risaldar/Clk (GD) Pramjit Singh (JC-238320H), 01 Mar 2003

Naib Risaldar/Clk (GD) A Rajeshwar Rao (JC-238408M), 01 Mar 2003.

SPECIAL LIST

To be Naib Risaldar (Religious Teacher)

Harinder Singh (JC-239852P), 15 Feb 2003.

Anoop Kumar Dangwal (JC-239850K), 15 Feb 2003.

Devendra Kumar (JC-239851M), 15 Feb 2003.

To be Nb Ris

Dfr Ram Bux Singh (No. 01064000X now JC-239788H), 01 Sep 2002.

Dfr Rohtas Kumar (No. 01070587X now JC-239795Y), 01 Sep 2002.

Dfr Virendra Kumar (No. 01065151H now JC-239865M), 17 Oct 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 06 Sep 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Krishnapal Singh (No. 01063939F now JC-239903X), 20 Nov 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Rajender Singh Samant (No. 01064572Y now JC-239906L), 15 Dec 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Satpal Singh (No. 01064250Y now JC-239914K), 20 Nov 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Raghunath (No. 01069511L now JC-239916P), 20 Nov 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Dalbir Singh (No. 01069708F now JC-239917X),

20 Nov 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Balwant Singh (No. 01064671F now JC-239919H), 15 Dec 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Kappala Trinath (No. 01066692W now JC-239927F), 16 Jan 2003.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Sita Ram Sharma (No. 01067888W now JC-239928K), 07 Dec 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Amir Singh (No. 01080954M now JC-239930F), 08 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Babu Lal Singh (No. 01064943W now JC-239932M), 16 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 27 Sep 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Tript Narayan Jha (No. 01068709X now JC-239933P), 03 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Prem Rattan (No. 01062076Y now JC-239940L), 08 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Khiali Ram (No. 01062275M now JC-239941N), 08 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Swaran Chand (No. 01064465X now JC-239942W), 16 Dec 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Sarbeshwar Nath Pathak (No. 01063722X now JC-239943Y), 16 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Jalim Singh Rajawat (No. 01064078H now JC-239946M), 26 Dec 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Udai Pal Singh (No 01064390L now JC-239947P),
26 Dec 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Jai Prakash (No 01072625F now JC-239948X),
26 Dec 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Onkar Singh (No 01065027F now JC-239949A),
26 Dec 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Ramhet Singh (No 01069482F now JC-239950P),
09 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Bachan Singh (No 01065248N now JC-2399507),
08 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Narottam Singh (No 01070614W now JC-239955N),
07 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr For Singh (No 01064619Y now JC-239956W),
19 Dec 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Mani Mishra (No 01066799L now JC-
239957Y), 16 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Ghanshyam Rai (No 01067434H now JC-239958F),
21 Dec 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Madan Singh (No 01066176F now JC-239959K),
08 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 03 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Ganesh (No 01069318Y now JC-239960Y),
20 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 04 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Randhir Singh (No 01066675W now JC-239961F),
15 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 05 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Balvir Singh (No 01066734X now JC-239962K),
08 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 06 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Kalu Ram Bhamu (No 01074247M now JC-
239963M), 30 Dec 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 09 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Veerandra Singh (No 01069383Y now JC-239964P),
16 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 11 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Gee Varghese O (No 01074593H now JC-239969N),
15 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Jasbir Singh (No 01066803H now JC-239970H),
06 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Bhawani Singh (No 01078214Y now JC-239971L),
01 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr P Elumalai (No 01066846X now JC-239974Y),
08 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Prasanna Chandra Das (No 01065462W now JC-
239986N), 09 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Susanta Roy (No 01067871H now JC-239988Y),
07 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Ashok Kumar Gour (No 01068769M now JC-
239991Y), 16 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 17 Oct 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Surat Singh (No 01067886L now JC-239992F),
07 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 17 Oct 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Krishna Prasad (No 01067887N now JC-239993K),
07 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 22 Oct 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Jawahar Prasad Singh (No 01067267X now JC-
239997A), 29 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 24 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Nanhe Ram (No 01066863X now JC-239999L),
16 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Pritam Singh (No 01062592N now JC-240000M),
29 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Awadhesh Singh (No 01067933X now JC-240004H),
07 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 15 Dec 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Pep Singh Rathore (No 01063900P now JC-240005L),
11 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 26 Dec 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Tribhuwan Nath Kushwaha (No 01063527A now JC-
240006N), 08 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 27 Dec 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Davad Khan (No 01064296F now JC-240007W),
06 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2003
without effect on pay and allowances).

Dfr Bijay Kumar Singh (No 01069099H now JC-
240008Y), 09 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2003
without effect on pay and allowances).

Dfr Sant Kumar Singh (No 01063925F now JC-240009F),
11 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2003
without effect on pay and allowances).

Dfr Atibal Singh (No 01064246W now JC-240010W),
11 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2003
without effect on pay and allowances).

Dfr Phool Singh (No 01069764A now JC-240011Y),
01 Jan 2003.

Dfr Rattan Chand (No 01063149M now JC-240012F),
29 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2003
without effect on pay and allowances).

Dfr Jasbir Singh (No 01066483Y now JC-240014M),
08 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2003
without effect on pay and allowances).

Dfr Sunil Mandal (No 01068484A now JC-240019L),
24 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2003
without effect on pay and allowances).

Dfr Ishwar Singh (No 01069734H now JC-240020A),
28 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 02 Jan 2003
without effect on pay and allowances).

Dfr Satyapal Singh Sirohi (No 03174521A now JC-
240021H), 23 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 05 Jan 2003
without effect on pay and allowances).

Dfr Ashok Kumar Singh (No 01067337L now JC-
239582L), 13 Mar 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 13 Nov 2001
without effect on pay and allowances).

Dfr Ashok Ugran (No 01067076H now JC-239655M),
17 Jul 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Udai Ram (No 01063818A now JC-239731N),
01 Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Vinod Kumar Sen (No 01067548N now JC-239778Y),
30 Aug 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Chaman Lai Sudan (No 01064472N now JC-
239821P), 10 Oct 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Pakhar Singh (No 01077861M now JC-239869H),
16 Nov 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Kushal Pal Singh (No 01069963N now JC-239870X),
16 Nov 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 12 Jul 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Rajendiran S. (No 01065881N now JC-239897P), 02 Dec 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Arvind Kumar Singh (No 01068703W now JC-239920X), 01 Dec 2002.*

Dfr Biswanath PD Saw (No 01067158L now JC-239929M), 31 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Dilawar Singh (No 01066549K now JC-239951X), 15 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Rajpal (No 01064540W now JC-239987W), 27 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Balbir Singh (No 01069735L now JC-239989F), 14 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Balbir Singh (No 01069711F now JC-239990W), 14 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Shiv Narain (No 01070428A now JC-239994M), 22 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Swaroop Singh (No 01068379K now JC-239996X), 20 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Ishwar Singh (No 01070966N now JC-240001P), 29 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Mahavir Singh (No 01070004K now JC-240003A), 19 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 11 Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Keshva Nand (No 01062342M now JC-240013K), 01 Jan 2003

Dfr Krishna Vir Singh (No 01065911A Now JC-240015P)—28 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Pronob Kumar Gogoi (No 01067266P Now JC-240016X)—01 Jan 2003.

Dfr Fateh Singh (No 01068523N Now JC-240017A), 01 Jan 2003.

Dfr Daljit Singh (No 01069693K Now JC-240018H)—26 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Rajaram Singh (No 01062636A Now JC-240023N)—01 Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb-Ris wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Jai Singh (No 01065549X Now JC-240024W)—31 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Lakhan Singh (No 01067611X Now JC-240025Y)—31 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Randhir Singh (No 01069754W Now JC-240026F)—01 Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 19 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Pali Singh (No 01067635F Now JC-240027K)—31 Jan 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 11 Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Amrik Singh (No 01079053N Now JC-240028M)—01 Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Upadhyay Yadav (No 01065672W Now JC-240029P)—01 Feb 2003.

Dfr Shashi Kant Mishra (No 01065688F Now JC-240030K)—01 Feb 2003.

Dfr Mahadeo Oraon (No 01065115X Now JC-240031M)—01 Feb 2003.

Dfr Nand Lal Ram (No 01064690M Now JC-240032P)—01 Feb 2003.

Dfr Muna Khan (No 01070311F Now JC-240033X)—01 Feb 2003.

Dfr Ram Phal (No 01062093Y Now JC-240034A)—01 Feb 2003.

Dfr Kashmir Singh (No 01069695P Now JC-240035H)—
01 Feb 2003.

Dfr Ummed Singh (No 01068425N Now JC-240037N)—
01 Feb 2003.

Dfr Ram Baran Baghel (No 01067136M Now JC-
240042Y)—06 Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Raghuvir Singh (No 01067205X Now JC-240043F)—
06 Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Arun Saikia (No 01067288N Now JC-240044K)—06
Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 24 Oct 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Madan Lal (No 01062286Y Now JC-240046P)—08
Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Naranjan Singh (No 01066723L Now JC-240048A)—
03 Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 07 Nov 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Sarup (No 01062531W Now JC-240050X)—08
Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2002
without effect on pay and allowances).

Dfr Hardwar Prasad (No 01065669W JC-240056Y)—06
Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2003
without effect on pay and allowances).

Dfr Narayan Singh Tomar (No 01069270W Now JC-
240058K)—04 Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2003
without effect on pay and allowances).

Dfr Ganesh Bahadur Thapa (No 01067574P JC-
240060F)—06 Feb 2003.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2003
without effect on pay and allowances).

The Mechanised Infantry Regiment

To be Substantive Subedar Major (Clerk)

Sub Clk Chand Vir Sharawat (JC-223509H)—11th Feb
2003.*

*(Granted seniority in the rank of Subedar (Clerk) wef
01 Feb 2003 without effect on pay and allowances).

To be Substantive Subedar (Clerk)

Nb Sub Clk Chattar Singh (JC-418814P)—03rd Dec 2002*

*(Granted seniority in the rank of Subedar (Clerk) wef
01 Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Rajinder Singh (JC-418815X)—01st Jan 2003.

Nb Sub Clk Gopal Chand (JC-418816A)—01st Feb 2003.

Nb Sub Clk Darshan Lal (JC-418846X)—01st Feb 2003.

Nb Sub Clk Gopal Singh (JC-418859P)—01st Mar 2003.

To be Substantive Subedar (SKT)

Nb Sub SKT Chandran P (JC-219241Y)—13th Feb 2003.*

*(Granted seniority in the rank of Subedar (SKT) wef
01 Feb 2003 without effect on pay and allowances).

To be Substantive Subedar Major

Sub Jaswant Singh Rawat (JC-219226K)—01st Dec 2002.

Sub Jarnail Singh (JC-195472N)—01st Jan 2003.

To be Substantive Subedar

Nb Sub Rajpal Singh (JC-418957P)—01st Oct 2002.

Nb Sub Mohan Ram (JC-418865H)—23rd Dec 2002*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef
01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ram Phal (JC-418484F)—03rd Feb 2003*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef
01 Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Unnikkumaran Nair K (JC-418440K)—05th Feb
2003.

Nb Sub Gurdev Singh (JC-418671A)—01st Feb 2003.

Nb Sub Bishamber Singh (JC-418854W)—01st Feb 2003.

To be Substantive Subedar (RT)

Nb Sub (RT) Ashwani Kumar Pandey (JC-418014W)—
26th Mar 2003*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar (RT)
wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Nb Sub (RT) Birendra Upadhyay (JC-418015Y)—27 Mar
2003.*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar (RT)
wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar (Clerk/SKT)

Hav Clk Hiramani (14900427W Now JC-419679Y), 01st
Dec 2002.

Hav Clk Surender Prasad Bhardwaj (14900650A Now JC-
419690X), 01st Jan 2003.

Hav Clk Narayanan K (14900758X Now JC-419709L),
01st Feb 2003.

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

Hav Clk Viveka Nanda (14900397F Now JC-419713N)
01st Feb 2003.

Hav Clk Ram Dhari Singh (14901175F Now JC-419710L),
01st Feb 2003.

Hav Clk Om Prakash (14908805Y Now JC-419711H),
01st Feb 2003.

Hav SKT Bahadur Ram (2978069Y Now JC-419712L),
01st Feb 2003.

To be Nb Subedar

Hav Varghese George (14902356Y Now JC-419714W),
25th Jan 2003*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01st Oct 2002 without effect on pay and al-
lowances).

Hav Suresh Kumar (14906819A Now JC-419715Y), 17th
Feb 2003*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01st Oct 2002 without effect on pay and al-
lowances).

Hav Prem Singh (14907528M Now JC-419716F) 03rd Feb
2003*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01st Oct 2002 without effect on pay and al-
lowances).

Hav Jagbir Singh (3169381P Now JC-419717K), 31st Jan
2003*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 13th Dec 2002 without effect on pay and al-
lowances).

Hav J Francis (14902467W Now JC-419718M), 16th Jan
2003*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01st Jan 2003 without effect on pay and al-
lowances).

Hav Joginder Singh (14900572N Now JC-419719P), 01st
Feb 2003

Hav Amar Singh Verma (14900807P Now JC-419720K)
01st Feb 2003

Hav Mumtaj Khan (14906704M Now JC-419721M) 03rd
Feb 2003*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01st Feb 2003 without effect on pay and
allowances).

JOSE THOMAS
Under Secy.

No 362 dated 23rd May 2003.—In Ministry of Defence
Notification No 49 dated 07, Dec 2002 published in Gazette
of India No 755 dated 01 Nov 2002 under the heading 'Regu-
lar Army' sub heading 'Armoured Corps' below 'To be Nb/
Ris' on page No 1770.

To be Nb Ris

(a) For

Dfr Balraj Singh Manhas (No 1066477L Now JC-
239347M), 13 Sep 2001.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2001
without effect on pay and allowances.)

Read

Dfr Balraj Singh Manhas (No 1066477L) Now JC-
239347M), 13 Sep 2001.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2001
without effect on pay and allowances.)

(b) For

Dfr Kot Subhash Laxman (No 1067142A) Now JC-
239665W), 09 Jun 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2002
without effect on pay and allowances.)

Read

Dfr Khot Subhash Laxman (No 1067142A) Now JC-
239665W), 09 Jun 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2002
without effect on pay and allowances.)

(c) For

Dfr Bakatawar Singh (No 1065582P) Now JC-239683Y),
03 Jul 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2002
without effect on pay and allowances.)

Read

Dfr Bakhtawar Singh (No 1065582P) Now JC-239683Y),
03 Jul 2002.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2002
without effect on pay and allowances.)

(d) For

Dfr Meaendra Singh (No 1064156P) Now JC-239743H),
01 Aug 2002.*

Read

Dfr Mahendra Singh (No 1064156P) Now JC-239743H),
01 Aug 2002.*

JOSE THOMAS
Under Secy.

CORRIGENDUM

No. 363 dated 23rd May 03.—In Ministry of Defence Notification number 755 dated 01 Nov 2002 published in the Gazette of India serial No 49 dated 07 Dec 2002 under heading 'Regular Army' sub heading 'Infantry' The Mechanised Infantry Regiment below:—

To be Naib Subedar

(a) For : Hav Krishin Singh (14907661P) Now JC-419635F), 18 Jul 2002*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jul 2002 without effect on pay and allowances.

(a) Read: Hav Krishan Singh (14907661P) Now JC-419635F), 18 Jul 2002*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jul 2002 without effect on pay and allowances.)

JOSE THOMAS
Under Secy.